



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४५०]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर ३०, १९६६/पौष ९, १८८८

No: 450]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 1966/PAUSA 9, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th December 1966

S.O. 4044.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following further amendment to the Exports (Control) Order 1962, namely:—

In Part B of Schedule I to the said Order 'Item No. 34(i)—Giant Tyres, Tubes and Flaps other than Automobile truck tyres, tubes and flaps' shall be omitted.

(Issued from the file No. 29(2)/66-EL)

[No. E(C)Q, 1962/AM(119).]

P. D. KASBEKAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

(1777)

